

टॉप न्यूज़

मार्केट्स >

पर्सनल फाइनेंस >

Videos >

Shorts

इकोनॉमी

एग्रीकल्चर

स्टार्टअप्स

LIVE TV

रियल एस्टेट

ऑटो

टेक

बैंकिंग

रेलवे

एविएशन

फोटो गैलरी

इंडिया

दुनिया

ट्रेडिंग

FIFA World Cup

होम / बैंकिंग / रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा गोल्ड लोन का बाजार, जानिए क्यों यह बना सबकी पहली पसंद?



रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा गोल्ड लोन का बाजार, जानिए क्यों यह बना सबकी पहली पसंद?

ADVERTISEMENT

Written By ऐश्वर्या अवस्थी

Published: 8:44 AM, Jul 7, 2026 | Updated: 11:20 AM, Jul 7, 2026

क्या आप जानते हैं कि अब गोल्ड लोन सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला बन गया है? पढ़ाई से लेकर बिजनेस तक, हर जरूरत के लिए लोग गोल्ड लोन चुन रहे हैं. जानिए क्यों यह सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है और कैसे यह आपकी छोटी अवधि की जरूरतों के लिए सबसे आसान रास्ता है.



अब गोल्ड लोन सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला बन गया है (प्रतीकात्मक फोटो)

ADVERTISEMENT

टॉप न्यूज़

- 1 पहियों की सेहत से लेकर पटरियों की मजबूती तक, ट्रेन में सब होगा 'स्मार्ट मॉनिटरिंग' के हवाले, जानें रेलवे का नया ...
INDIAN RAILWAYS • 15 min ago
- 2 IT सेक्टर की कंपनी का बड़ा दांव! Anthropic के साथ मिलकर खड़ी करेगी AI एक्सपर्ट्स की नई फौज, शेयर पर रखें ...
LTIMINDTREE LIMITED • 22 min ago
- 3 टाटा ग्रुप के NBFC ने गोल्ड लोन में एंट्री ली! अब मुथूट फाइनेंस और मणपुरम फाइनेंस से होगी सीधी टक्कर
TATA CAPITAL • 24 min ago
- 4 नई गाड़ी या इंश्योरेंस खरीदने पर मिलेगा ITC का फायदा, GST काउंसिल बैठक में फैसला संभव, जानें डीटेल्स
AUTO COMPANIES • 35 min ago
- 5 म्यूचुअल फंड में बस 40 पैसे का ये छोटा सा अंतर लगा सकता है लाखों का चूना! एक्सपर्ट से समझें मुनाफे का पूरा गणित
MUTUAL FUND • 1 hr ago
- 6 ₹500 से निवेश का मौका! मार्केट में आया नया NFO, BSE के टॉप 10 बैंक को करेगा ट्रैक, जानें डीटेल्स
BAJAJ • 1 hr ago

आज के समय में **गोल्ड लोन** रिटेल लोन (खुदरा कर्ज) के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में से एक बनकर उभरा है. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan SFB) के

विभास चंद्रा, हेड - माइक्रो बैंकिंग और गोल्ड लोन के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में गोल्ड लोन के मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। असल में पहले के समय में लोग ज्यादातर किसी बड़ी इमरजेंसी या मुसीबत के टाइम ही गोल्ड लोन लिया करते थे, लेकिन आज के दौर में ग्राहकों का नजरिया बदल गया है।

जी हां आज के टाइम में लोग इसे अपनी छोटी अवधि या शॉर्ट-टर्म की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बेहद तेज, सुरक्षित और आसान रास्ते के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि नौकरीपेशा लोगों से लेकर छोटे-बड़े बिजनेस मालिकों तक, हर वर्ग के लोग अब अपनी जरूरतों के लिए गोल्ड लोन का सहारा ले रहे हैं।

क्यों गोल्ड लोन ले रहे लोग

Powered By



Lea

Explore early-stage
companies with growth
potential.

|| 🔊 📺

असल में अपने ही गोल्ड के बदले लोन लेने के फायदों को लेकर लोगों में जागरूकता काफी बढ़ गई है, खासकर शहरी इलाकों में इसका चलन बहुत तेजी से देखा जा रहा है। अब ग्राहक केवल ब्याज दरों को ही नहीं देखते, बल्कि उनके लिए लोन मिलने की रफ्तार और बैंक पर भरोसा भी उतना ही जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं RBI के नए डेटा से पता चलता है कि बैंकों का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो साल-दर-साल करीब 128% बढ़कर लगभग 4.28 ट्रिलियन रुपये हो गया है, जिससे रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में काफी बढ़ोतरी हुई है

यह ही पढ़ें: सोने की कीमत 20% टूट जाए तब भी क्यों नहीं डूबता बैंकों का पैसा?
Crisil ने समझाया पूरा गणित

क्यों बदल रही है लोगों की पसंद और क्या हैं इसके कारण?

अगर हम लोन लेने के मकसद की बात करें, तो अब इसमें काफी डाइवर्सिटी आ गई है। ग्राहक अब केवल मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी अचानक आई जरूरत के लिए ही गोल्ड गिरवी नहीं रख रहे हैं। इसके बजाय, कई लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी फंड (वर्किंग कैपिटल), बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के खर्च, खेती-किसानी की जरूरतों, सीजनल बिजनेस के कामों और अपनी नकदी की कमी (शॉर्ट-टर्म कैश फ्लो) को मैनेज करने के लिए भी गोल्ड लोन का यूज भी धड़ल्ले से कर रहे हैं।

किसका जरिया बन रहा है गोल्ड लोन

असल में उज्जिवन बैंक का अनुभव बताता है कि बहुत से ग्राहकों के लिए औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था (फॉर्मल बैंकिंग) में एंटी करने का पहला जरिया गोल्ड लोन ही बनता है। इससे वे अपनी पैसों की जरूरत को तो तुरंत पूरा करते ही हैं, साथ ही बैंक के साथ एक मजबूत और लंबा रिश्ता भी बनाने में सफल होते हैं।

हर वर्ग के ग्राहकों की पसंद बना गोल्ड लोन

आज के टाइम में गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों के ट्रेंड और उनकी उम्मीदों में जो बड़े बदलाव आए हैं

You May Like

Promoted Links

Prime plots starting ₹2.39Cr*
Peninsula Land

Rs 105 Dividend + Rs 35 Special Dividend:
ICRA's record date is nearing; check if
you're eligible for the bumper payout

Mumbai: Best Public Speaking Course for
Children
Planet Spark [Book Now](#)

1:10 Stock Split: IT firm to reward
shareholders; record date this week

Premium NA Plots in Alibaug
Peninsula Land

9 Stocks To Buy For Long Term: Motilal
Oswal, Sharekhan bullish on SBI, Titan,
Tech Mahindra; up to 42% upside

Launching Newest Tower At Talegaon - 2
BHK starting @ ₹1.35 Cr (All Incl.)
Ashiana Amodh [Learn More](#)

1:3 Bonus Issue: Bank to give free shares
to shareholders; record date on June 12

Oceanopolis by SBR | 2 & 3 Bed Sea-View
Homes From ₹1.50 Cr*
Sunteck [Learn More](#)

9 Stocks To Buy For Long Term: Motilal
Oswal, Sharekhan bullish on Suzlon
Energy, Titan, PNB; up to 38% upside

by Taboola

ADVERTISEMENT

गोल्ड लोन से जुड़े मुख्य बिंदु	ग्राहकों के बीच देखे जा रहे मौजूदा ट्रेंड्स (उज्ज्वल एसएफबी के अनुसार)
लोन लेने वाले प्रमुख वर्ग	नौकरीपेशा लोग, बिजनेस मालिक, खुद का काम करने वाले (सेल्फ-एम्प्लॉयड), किसान और पहली बार लोन लेने वाले युवा।
ग्राहकों की मुख्य उम्मीदें	तुरंत लोन की मंजूरी (फास्ट अप्रूवल), आसान प्रक्रिया, पारदर्शी ब्याज दरें, चुकाने के लचीले विकल्प और बेहतरीन अनुभव।
लोन लेने का मकसद	मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक जरूरतें, बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल, पढ़ाई, खेती, मौसमी व्यापार और केश फ्लो संभालना।
बैंकिंग से जुड़ाव	औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था (Formal Banking) से जुड़ने और बैंक के साथ लंबा रिश्ता बनाने का पहला कदम।

यह ही पढ़ें: गोल्ड लोन लूं या गोल्ड ओवरड्राफ्ट, किससे होगा ज्यादा फायदा? अपना सोना गिरवी रखने से पहले जान लें हर डीटेल्

आपके काम की बात

सिंपल शब्दों में कहें तो फिर गोल्ड लोन का बाजार आने वाले समय में भी लगातार बढ़ता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह ही है कि जब भी किसी को अचानक या बहुत जल्दी पैसे की जरूरत होती है, तो फिर गोल्ड लोन उन्हें बेहद आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से फंड मुहैया कराता है। क्योंकि ग्राहक अब बेहद सरल प्रक्रिया और पारदर्शी नियमों की उम्मीद करते हैं, तो इसलिए यह लोन सेगमेंट आज की तारीख में लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

(ताजा खबरों के लिए आप हमारे [WhatsApp Channel](#) को सब्सक्राइब जरूर करें)

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 गोल्ड लोन पर ब्याज दरें क्या होती हैं?

आमतौर पर गोल्ड लोन की ब्याज दरें पर्सनल लोन के मुकाबले कम होती हैं। यह बैंक और आपकी सोने की शुद्धता पर निर्भर करती हैं, जो अक्सर 7% से 16% के बीच हो सकती हैं।

Q2 क्या बैंक में मेरा सोना पूरी तरह सुरक्षित रहता है?

हां, बैंक आपके सोने को हाई-सिक्योरिटी लॉकर में रखते हैं और इसका बीमा भी कराते हैं। लोन चुकाने के बाद आपको आपका सोना सुरक्षित वापस मिल जाता है।

Q3 गोल्ड लोन के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

इसके लिए बहुत कम कागजों की जरूरत होती है। बस अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ (KYC) देकर आप तुरंत लोन ले सकते हैं।

Q4 क्या लोन की अवधि खत्म होने से पहले पैसा चुका सकते हैं?

जी हां, ज्यादातर बैंक और कंपनियां समय से पहले लोन चुकाने (Foreclosure) की सुविधा देती हैं। कुछ बैंक इस पर छोटा सा चार्ज लेते हैं, तो कुछ बिल्कुल फ्री रखते हैं।

Q5 क्या खराब क्रेडिट स्कोर होने पर भी गोल्ड लोन मिल सकता है?

हां, क्योंकि यह एक 'सिक्योर्ड लोन' है (यानी आप सोना गिरवी रख रहे हैं), इसलिए खराब सिबिल या क्रेडिट स्कोर होने पर भी आसानी से लोन मिल जाता है।

Add Zee Business as a Preferred Source

Add as a preferred source on Google

Related Topics

Gold

Gold loan

loan

Banking